



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

अंतरिक्ष विभाग**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 273(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के शर्त द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'ख' पदों) भर्ती नियम, 2009 में किए गए आंशिक संशोधनों में, अब तक, सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, व्यैक्तिक सहायक तथा निजी सहायक के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे आंशिक संशोधन करने से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में सहायक के पद (समूह-ख अराजपत्रित) के पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बना रहे हैं, जैसे कि:-

- लघु शीर्षक और आरंभ -** इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (सहायक) भर्ती नियम, 2016 कहा जाए, यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा श्रेणी वेतन -** उक्त से संबंधित पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और श्रेणी वेतन, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
- भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि -** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।
- अपात्रता -**

क) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है।

अथवा,

ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति अपात्र होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट मिली हो।

5. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ कहीं भी केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है तो, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दी जा सकती है।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	क्या चयन अथवा चयन पद है
1	2	3	4	5
सहायक	11* (2016) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ख' (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	₹9300-34800 (वे.वै.-2) + श्रेणी वेतन ₹4600	दोनों

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वालों पर लागू होंगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
9	10	
लागू नहीं	i) 75% वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ii) 25% सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा iii) उपरोक्त के अभाव में, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किन श्रेणियों द्वारा भर्ती की जानी चाहिए	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
i) पदोन्नति (वरीयता) नियमित आधार पर नियुक्त उच्च श्रेणी/लिपिकों/हिंदी टंककों में से कम से कम 5 वर्षों की सेवा सहित (वे.वै. 5200-20200) रु.2400/- का श्रेणी वेतन। चयन लिखित परीक्षा में अर्ह होने तथा (i) समय पावंदी (ii) अच्छा आचरण;(iii) सामान्यतः उत्तम सेवा रिकार्ड तथा (iv) सतर्कता अनापत्ति जैसे अन्य मानदंडों को पूरा करने पर आधारित होंगे।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं: (1) संयुक्त सचिव, अं.वि. - अध्यक्ष (2) मुख्य लेखा नियंत्रक, अं.वि. - सदस्य (3) निदेशक, (बजट), अं.वि. - सदस्य (4) उप सचिव, (कार्मिक), अं.वि. - सदस्य	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने से छूट प्राप्त है।

<p>ii) सीमित विश्वासीय स्पर्धात्मक परीक्षा (योग्यता):</p> <p>नियमित आधार पर नियुक्त उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों/हिंदी टंककों में से कम से कम 5 वर्षों की सेवा सहित (वे.वै. रु. 5200-20200) रु. 2400/- का श्रेणी वेतन।</p> <p>iii) प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी केंद्र सरकारी संगठन में सदृश पदों को धारित करने वाले अधिकारी।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी पूर्व-संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए, समान अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में तत्काल नियुक्ति पर जाने को शामिल करते हुए सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के अंतिम दिनांक तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
---	--	--

[सं. 12012/2/2003-I]

एस. कुमारस्वामी, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in partial modification of the Department of Space (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Assistant, Senior Project Assistant, Personal Assistant and Private Secretary, except in respect things done or omitted to be done before such partial modification, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and designation to the post of Assistant (Group-B Non Gazetted)) in the Department of Space, namely : —

- Short title and commencement.**—These rules may be called the Department of Space (Assistant) Recruitment Rules, 2016.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay.**—The number of the said posts, classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant	11*(2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'B' (Non Gazetted) (Ministerial)	₹ 9300-34800 (PB-2) + Grade Pay ₹ 4600	Both

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10
Not applicable	i) 75% by promotion on seniority basis. ii) 25% by Promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. iii) Failing the above, by deputation.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(i) Promotion (Seniority) From amongst Upper Division Clerks/Hindi Typists (Pay Band Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/- with a minimum of 5 years service rendered after appointment thereto on regular basis. Selection will be based on qualifying in the written test and subject to fulfillment of other criteria, such as (i) punctuality in attendance; (ii) Good conduct; Generally good service record; and (iv) Vigilance Clearance.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Joint Secretary, DOS —Chairman 2. Chief Controller of Accounts, DOS —Member 3. Director (Budget), DOS —Member 4. Deputy Secretary (Personnel), DOS —Member	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission.

<p>(ii) Limited Departmental Competitive Examination (Merit) :</p> <p>From amongst Upper Division Clerks/ Stenographers/Hindi Typists (Pay Band Rs. 5200-20200)with Grade Pay of Rs. 2400/- with a minimum of 5 years service rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Selection will be based on the marks obtained in the written test, assessment of Annual Confidential Reports/Annual Performance Assessment Reports and performance in the interview.</p> <p>(iii) Deputation :-</p> <p>Officers holding analogous posts in the Central Secretariat Service or in any Central Government Organisation.</p> <p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisations/Departments of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[No.12012/2/2003-I]

S. KUMARASWAMY, Jt. Secy.